

HIN3A13a
(Expression orale)

Cours-9

Discutez de la situation économique en Grèce et la crise en Europe

क्यों परेशान है ग्रीस ?

ग्रीस की सरकार कर्ज-m dette घटाने और बचत-f épargne को बढ़ावा-m encouragement देने के लिए कड़े फैसले ले रही है. आर्थिक संकट-m crise économique और यूरो क्षेत्र में अस्थिरता-f instabilité के पीछे ग्रीस की बड़ी भूमिका-f rôle है. ग्रीस से कुछ आंकड़ें जो पूरे यूरोजोन के लिए चिंता-f souci का विषय बन गए हैं.

यूरोजोन में ग्रीस

2001 में ग्रीस यूरोजोन में शामिल हुआ और यूरो अपनाने वाला 12 वां देश बना. सरकारी कर्ज बढ़ता रहा और 2010 में ग्रीस की सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और यूरोपीय संघ से 110 अरब यूरो लेने में सफल रही. इस साल ग्रीस को एक दूसरा आर्थिक पैकेज मिला. यूरोपीय संघ और आईएमएफ ने 130 अरब यूरो का उधार-m emprunt दिया. निजी क्षेत्र-m secteur privé को दिए गए 107 अरब यूरो का कर्ज माफ किया गया. ग्रीस ने यूरोपीय संघ से वादा किया कि वह अपने देश में बचत-f épargne के लिए कड़े नियम लागू करेगा. ग्रीस यूरोजोन की अर्थव्यवस्था में 3 प्रतिशत का योगदान-m contribution देता है. पर्यटन-m tourisme और समुद्री व्यापार ग्रीक अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं. पर्यटन जैसे और कई क्षेत्र हैं जिनके बारे में औपचारिक officiel आंकड़े नहीं हासिल किए जा सकते हैं. जानकारों-m spécialiste का मानना है कि ग्रीक अर्थव्यवस्था का 30 प्रतिशत राजस्व-m revenue, taxe यहीं से आता है.

ग्रीस का सार्वजनिक कर्ज

17 देशों से बने यूरोजोन में ग्रीस का कर्जा उसके सकल घरेलू उत्पाद-m PIB का 60 प्रतिशत है. 2013 तक यह सकल घरेलू उत्पाद का 189 प्रतिशत हो जाएगा. ग्रीस को कर्ज दे रहे देश मांग कर रहे हैं कि 2020 तक उधार को 120 प्रतिशत तक कम किया जा सके. ग्रीस का सार्वजनिक घाटा-m déficit publique यानी सरकारी राजस्व और खर्च के बीच फर्क को अगले साल तक 5.5 प्रतिशत तक लाना है. इस वक्त यह 6.6 प्रतिशत है.

आर्थिक विकास

बजट के मुताबिक इस साल ग्रीस की अर्थव्यवस्था 6.5 फीसदी और 2013 में 4.5 प्रतिशत घट जाएगी. अगले साल को साथ लिया जाए तो ग्रीस लगातार छह साल मंदी ralentissement में गुजार चुका होगा. ग्रीस में महंगाई की दर इस वक्त 1.6 प्रतिशत है. सितंबर में यह 0.9 प्रतिशत थी. ग्रीस में 25.4 प्रतिशत लोग बेरोजगार au chômage हैं. पिछले साल यह संख्या 18 प्रतिशत थी. 24 साल से कम उम्र के लोगों में 10 में से औसतन छह लोगों के पास नौकरी-f emploi नहीं है. लेकिन बजट के मुताबिक यह संख्या अगले साल 22 प्रतिशत तक घट जाएगी.

घटती जनसंख्या

ग्रीस में आर्थिक संकट के बाद कई लोग देश से निकल रहे हैं और जन्म दर-f taux de naissance में भी कमी आई है. 2009 में 1,12,80,000 के मुकाबले देश में केवल एक करोड़ लोग बचे हैं. इस साल जून में चुनावों के बाद रूढ़िवादी conservateur नेता आंतोनिस सामारास सत्ता में आए. वह गठबंधन-m alliance सरकार चला रहे हैं. एक तरफ सरकार में शामिल पार्टियां और आम जनता बजट कटौती-f coupure का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ यूरोजोन के नेता साफ कह चुके हैं कि ग्रीस को मदद चाहिए तो बजट पर कैंची मारनी होगी.

(एमजी/ओएसजे(एफपी))